


BHARTIYAM VIDYA NIKETAN
Summer Assignment (2021-2022)
Class II

Subject	Work/Assignment
English Language & Literature	<p>1. Write neatly all the three Lesson Plans in your fair notebook. 2. Practice 10 pages of Cursive Writing. (English course book page no. 14, 21 and 22) 3. Read and revise all the three chapters. 4. Learn the poem – Only One Mother 5. Worksheet -1 (15 marks)</p> <p style="text-align: right;">10 marks</p>
Hindi Language & Literature	<p>1. कक्षा में कराए गए सभी पाठ का लिखित कार्य अपनी फेयर नोटबुक में करना है 2. रोजाना 1 पेज सुलेख लिखना है 3. सभी पाठ का अभ्यास कार्य याद करना है 4. कविता सवेरा याद करना है 5. वर्णमाला और मात्राओं का अभ्यास करना है 6. विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द याद करना है 7. स्वयं का परिचय पर 10 वाक्य लिखना है 8. पशु पक्षी हमारे मित्र अनुच्छेद लिखना है </p> <p>वर्कशीट नंबर-1. (25 अंक)</p>
Mathematics	<p>Worksheet No. 3 & 4 (15 marks)</p> <p>(2 marks for each question)</p> <p>Learn and write tables 2-15 (Write 2 times each) (10 marks)</p>

<p>Computer</p>	<p>Identify or visit different places where computers are used for various kinds of work like shops, banks etc. Paste pictures showing the same. Write few lines for each place where computers are being used and also write about the purpose or work computer performs at that place. (5 marks)</p>
<p>Environmental Science</p>	<p>Use half chart paper to make a chart on energy-giving, protective and body- building foods. Paste pictures of food items under the correct heading. (10 marks)</p> <p>*Learn and write keywords and define two times of chapter 1&3. (5marks)</p> <p>*Write 10 lines about myself. (5 marks)</p> <p>* Label the diagram of the parts of body. (5 marks)</p>  <p>*Give water and food to birds daily in the morning.</p> <p>*Do yoga poses in the morning to keep yourself fit and healthy</p> <p>*Do your work yourself to help your mother.</p>
<p>General Knowledge</p>	<p>Revised all the chapters coming in PA-1 Write 10 lines on "My Country" (5 marks)</p>